

सीएसआईआर - केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी (राजस्थान)

सं.35/4/2011-राभा(यो-5)

दिनांक 14.01.2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सीएसआईआर - सीरी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 7.11.2014 को हुई बैठक में की गई अनुशंसा पर निदेशक, सीरी, ने संस्थान के विभिन्न वैज्ञानिक/तकनीकी/प्रशासनिक प्रभागों/अनुभागों में कार्यरत सहकर्मियों के लिए 1 सितंबर 2014 से 31 अगस्त 2015 तक की अवधि के दौरान वैज्ञानिक/तकनीकी/प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने का सहर्ष अनुमोदन किया है। योजना का विवरण निम्नवत है

पुरस्कारों की संख्या - 10(दस) प्रोत्साहन राशि - रु.1000/- प्रति प्रतिभागी


पात्रता -

संस्थान के विभिन्न समूहों/विभागों/अनुभागों/प्रभागों में कार्यरत ऐसे सहकर्मियों जिन्होंने पूरे वर्ष संस्थान में राजभाषा प्रचार-प्रसार के लिए अपने स्तर पर पत्राचार/दैनिक कामकाज/प्रविष्टियाँ/हिंदी सम्मेलनों में प्रतिभागिता/हिंदी प्रतियोगिता में प्रतिभागिता/डायरी/ डिस्पेचर/रजिस्टर/रोकड बही/लॉग बुक/मेजरमेंट बुक आदि में प्रविष्टि हेतु हिंदी भाषा का उपयोग किया हो।

मूल्यांकन -

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन निदेशक महोदय द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति की संस्तुतियों के आधार पर अंतिम निर्णय निदेशक महोदय द्वारा लिया जाएगा।

इस योजना में सम्मिलित होने के लिए सहकर्मियों को योजना अवधि की समाप्ति के उपरांत अपने विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।



हिंदी अधिकारी

प्रतिलिपि -

1. राकास के सभी सदस्य
2. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष
3. सूचना पट्ट
4. प्रभारी, एनएमसी - संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए